

प्रेस विज्ञप्ति

जामिया में 'विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस' पर प्रदर्शनी और मैराथन का आयोजन

जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आज 'रिकालिंग द होरर्स ऑफ़ द ब्रिटिश रूल इन पिक्टोरियल एंड पोएटिक एप्लिकेशन्स' के रूप में 'विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस' मनाया। जामिया की कुलपति प्रो. नजमा अख्तर ने विश्वविद्यालय के प्रेमचंद आर्काइव्स एंड लिटरेरी सेंटर में प्रदर्शनी का उद्घाटन किया जो 31 अगस्त, 2022 तक जारी रहेगी। इस अवसर पर जामिया के रजिस्ट्रार प्रो. नाजिम हुसैन जाफरी, विश्वविद्यालय के शिक्षण और गैर-शिक्षण सदस्य उपस्थित थे।

प्रदर्शनी में ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन, 1857 के विद्रोह, भारतीयों के गिरमिटिया मजदूरों के रूप में प्रवास, मद्रास प्लेग, बंगाल अकाल, मैसूर, बंगाल, पंजाब और दिल्ली में दुखद घटनाओं जैसी प्रमुख घटनाओं की स्मृतियाँ प्रस्तुत की गई हैं। भारत के विभाजन की भयावहता और कई भारतीय क्रांतिकारियों जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकउल्लाह खान, रामप्रसाद बिस्मिल और कई अन्य लोगों के बलिदान, जिनमें महिलाएं शामिल रहीं, उन्हें चित्रात्मक और काव्यात्मक पैनल के माध्यम से दर्शाया गया है।

इस अवसर पर अपने संबोधन में कुलपति ने कहा कि वर्तमान पीढ़ी को पता होना चाहिए कि वे लोग कौन थे जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, और यह प्रदर्शनी ब्रिटिश शासन के तहत कई वर्षों की भयानक घटनाओं को याद करने का एक प्रयास है। इन कविताओं में स्वतंत्रता संग्राम की कहानी सुनाई गई है जिनमें से कुछ कविताओं और कई प्रसिद्ध कवियों पर अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके बारे में आज की पीढ़ी को पता होना चाहिए।

इससे पूर्व कुलपति ने विश्वविद्यालय के एमएके पटौदी खेल परिसर में मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। अपने हाथों में तिरंगा लिए हुए एनसीसी कैडेट, एनएसएस वोलेंटीयर्स और विश्वविद्यालय के स्टाफ सदस्यों ने मैराथन में बड़ी संख्या में भाग लिया, जिसने पूरे परिसर को कवर किया।

राष्ट्रीय ध्वजारोहण 15 अगस्त, 2022 को सुबह 09.30 बजे डॉ. एम.ए. अंसारी सभागार के लॉन में होगा, इसके बाद जामिया के इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संकाय सभागार, में सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद के सीईओ श्री वेदमणि तिवारी स्वतंत्रता दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे।

जनसंपर्क कार्यालय

जामिया मिल्लिया इस्लामिया